

SYSCHEM (INDIA) LIMITED

Regd.Off.:Village BARGODAM, Tehsil Kalka, Distt. Panchkula (Haryana) Tel.No.:0172-5070472; CIN:L24219HR1993PLC032195, Website:www.syschem.in; Email:info@syschem.in

Ref: SIL/2023-24/60

09th November, 2023

To,
The Gen Manager
Corporate Relationship Dept.
BSE Limited
PJ Tower, Dalal Street, Mumbai- 400 001

Equity Scrip Code: 531173

Kind Att: Head -Listing Department

<u>Subject: Intimation under Regulation 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015, please find enclosed the copy of the newspaper advertisements published on 09th November, 2023 in the newspaper in Jansatta and Financial Express (Chandigarh and Delhi) Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended on 30th September, 2023 which is considered approved and taken on record by the Board of Directors of the Company.

We request to please take the above information on records.

Thanking you Your Faithfully

For Syschem India Limited Digitally signed by Shikha Kataria

Date: 2023.11.09 Date: 2023.11.09

Company Secretary and Compliance Officer

M.No: 57304



ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

Plot No. 14, Switcr 25, Disertia, Dellis-119675 Ph.: +81-124-4511111

Email: investor@artsmisheapitals.com; Website: www.artenishoapitals.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBED to 1021

						le or Phoni
IJ,		Quarter	Endef	Half Yes	Ended	Year Ended
8.	Persoles	38-Sep-23	20-Sap-22	36-Sep-23	38-Sep-22	314hr-23
_			(Znou	dred;		(Audited)
1	Total Income from Operations	22,500.57	15,745.87	A3.454.97	36,865.19	73,742.50
2	Net Profit for the period (Belton Tox, Evolutions and/or Extraordinary Sensi	1,979.56	1,367.48	3,9063	2,5% (5	1,140.6
3	Not Feels for the poted Before for jaffer Exceptional angles Extraordinary Name)	1,079.50	1,3(7,4)	3,90.65	2,309.71	0.000 00
4	Net Profe for the period offer les jeffer Escapitorus and/or Extraordinary Remol	1,369,71	877 III	5,325.94	1,76341	5,801.6
. 8	Telai Comprehensina Nicone for the police (competing Profit for the police (offer tox) and Other Comprehensina Income (offer tox))	1,297,09	912,32	2,29630	1,710.65	3,863,21
	Paddup Equity there Captul (Face value Re. VI., exit)	7,39.0	1,334,27	1,000.61	1,19627	3,943.39
1	Rinaryos (secs.ding Revoluntari Rosense)					32233 14
	Earning one Equity Stone (Fine-value Ris Vineals) (as Basis (b) Disputs (Not accombined)	1,32° (1,34°	0.861	139	1,32° 1,30°	2 29

The	key standations translat information of the Comp	party is an umde	ř			To the Laboratory
	A THE STREET	Quarter	Ended	Full Year	Ended	Year Snoted
Si.	Particulars	30-Sep-23	35-Sep-22	30-5ep-23	30-Sep-22	31-Mor-23
-	20000000		(Onto	dtwit)		(Auditel)
t.	Tela Income from Operatoria	21,001.48	18,244.08	41,850.00	54,500 44	P1.400.11
2	Not Profit for the period before Tox after Exceptions from	1,060,27	1,411,48	3.233.13	153842	0.266.70
2	Not Post by the period after Tax	1,376-09	18.878	2,310,927	1,543.76	3,968.50

- The above is an extract of the depoted format of projected financial resign filed with the Stock Each arrange under Regulation 35 of The SEE Coding Chingstons and Discharin Requirements's Regulations, 2015. The full forward the financial result (Considerant Standards) are exekutes on the Stock Enthings we have been a supported by the Carried (were neutral access) & REE Control (were been discovered access) as REE Control (were been discovered access) as REE Control (were been discovered access) as REE Control (were been discovered access).
- The above financial seasts for the quarter and felf year ancied September 30, 2023 were surkness by the Audit Committee at the receiving bold on November 8, 2023 and approved by the Board of Otraction of the Company at their receiving held on November 8. 2025. The Statutory Auditors have expressed an unreadified constructor on the obsessed resigns.
- encial results have keen prepared or grantist that ASI, as promitted under Section 135 of the Companies Act 2015, and the other recognised supporting and acknown to the autom approxima

For and on behalf of the Board of Dire of Arterio Medicare Services Limited

Place : Gurugram Salad : Movember 8, 2023

Children DAY DESCRIPT



e-Tender Notice Driese – Evingers – See Invited Trace Unigous repositions enter Mathematic Gester Les per dichte gleine is Neder decumental for Supply of 50 & 29 Ten Capoulty Secretisels PR type, hauf est spe-seighoniges in Wichseldinger und Obserne Mornell of U.F. Scien Duger Carporation LMs., The e-dender decuments with obtained buger Carporation LMs., The e-dender decuments with obtained specifications, terms and smultions etc., sanite directorded from a

specifications, remain and assumptions of the, claim or convented to their function period in their / released to appared to 1000 Comparation in software seem approximants from 100.11.2023. The Study Comparation is the Study Comparation enserved the right in partial and any or all followers in their growns without congruing any senses in add decisions of Comparation without bound A brinding. MEMORIAN DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P

'IMPORTANT'

copy it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or inclividuals advertising in its nowspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatoever.

New Sire Leasing and Finance Limited Registered show 20.04-04 has been been been been could be convert for the Connddore its dualted Flourist Security for the Bugstor and Self Sear Entert 2001 September, 2022

							PRIC BY LARRIED
K.	Personne		Sure fra	rië .	Sin Wester St	wind	That shelper
No.		\$6,96,065	NO.340	36,96,3625	SERESHIES On existed	36.86363	11.36360
		(Stranding)	(Breathd)	(Smoothel)		Amended	(Ruffel)
1	Trial traine two speciers	146	.340	1,00	4.86	1.67	15.00
t :	Teachers and detections been	1(0	0.00	985	196	100	tak
•	fee first: some for frequency teston flag other Europeanic state Cotton days between	800	0.00	2000	tm.	240	100
*	Flat Porti: Superity for protest also facilities Elements and superity superity superity	374	546	0.09	1/8	0.00	146
1.	Total Computations involve to the period (Computing field) (Local to the period after last) and other Computations (Involve John Vol)	110	141	(8.80)	CH	236	1.6
	Pain a flash; floor Zapric Flore below if Pa. 1011	49.16	68.00	10/0	WE (0)	HE: 01	70 B
1	Otw Fern					-	1,405.00
•	Europhi'v Denicate 10 earls for continuing and decompositional						
	Back	5.30W	0.00%	-80	1.000	978	Alace
	District	0.829	8001	885	8.0000	.000	5306

- The fraction with the last property accelerate the Corporary (free Asserting Section). Asserting a provide one Section (for the Corporary Section) which releases the section of the corporary section of the corporary section (section) and the corp
- The Apple modifies a second to the half Contributed approved by the Board of Student of the Linguist, in their memory half or State to the the Section Audit of the Company have provided a distribution flower for the same
- Plant of process period was responsed a resolute above recovery to belle it the possible of contrast
- title bounding Damers on aphilits or he Directly
- The Company's Valley of the restriction activity or the suprest sporting pales (4) to 100 is not reasonal.

S INDIAN ACRYLICS LIMITED

i.	Fernier		maging to			Covery Strains			AIM	CONSIG. Nat Exe		Anna Committee	TONSOLINETS Flow Extent
		JENEYO,	30996G1 AUG/910	Melecia	JAMES CO.	BHH43 MAUDEN	,09951 0	DINES		SPRICE SPAN	2000E	3140000 (AUXITOR)	314553 34467355
	Type course true: questions	120.0	-	NW N	108138	14190.00	Sirea		0942.0	zen de	1000	attack 20"	Married A
	Not have been to be party before to somption and a before them; he had been to	penso	pan	on m	anne	en n	CHE M	per in	em.	298.25	no	101.0	w.a
	maybra es a Catavitas tem	anix)	80.75	on m	arrino	310.00	recie	2000.27	F.B.	248.5	ai.N	166.21	ter in
	to Push to the period other Tax (After Subsentioner and I've experience (Syres)	040.60	890,750	29136	200.00	500	2000	dent/1	en.	268.00	21.5	7600.31	100.00
	Train property and comments of the parties of the p	ORN NO	min to	iousi	per in	20.0	178.60	inar st		and to		- Maker	565.66
	Ferry Sarly Store Same of the Store of Stores for Chicago												
	Earthy or Dise of St. Or early for contrally of Specifical profess, jud amusikal	SHINK	393	36806			Jevere	SHALE.	CHANG	JOHN	.1996.05		MALK
J	Stean & Olivine	7.99	375	1.85	-3.85	LESS.			20%	J. 6785	, 200	140	1.60
18.0	Alter Andrew Photograms patient, STE Twisters Place Classified Speed MCVSSE		of Francisco	ne Percito	Parl ant 5 or he Sto		rigos creder a restante s			NOV Los		on and Deuter	

SYSCHEM (INDIA) LIMITED

Royd, Office : Village SANSIDAR, Tab in I CON: L2425960000074.003299

			SARTEK ENDE		MACF YEAR	
į.	PARTICULARS	(SHAMES)	Shautting	7.77	18.98.2123 (Neadfire)	SERVICE
Т	Income from Operations	77.11.11.11	121111111111111111111111111111111111111	110000		2235
T	(a) Reconst Neth Operations - Gross	6.367.76	1,000,00	32913	1396.0	3.884.01
	Bi Shar News	7.0	4.10	0.85	0.16	19.49
	Total Surveys from Reportations	4.36T.RE	1,025.16	E28E37	1,317.01	TAILH
Т	Espensis	ot a Scotlantico	Albertalities			NAME OF TAXABLE PARTY.
7	Tall That of Francisco, Universal	T-02.28	1778-00	131134	FRE	1,896.11
_	B) For Peace of Tire's in Tools		-			
	10. Serger: 1 Average of Enday State, Nov. of Proposition States in National	90,74	2020	(4,18)	13.45	47.86
	Tot Singletonia Narrathia pissarina	146.34	19034	100.68	277.66	201 E
П	(a) Progress Coults	338	10.44	201	11/12	271
_	TO Trigorocolor, and amendesiative expense	63.50	6736	75.86	137.40	12667
-	TO EXCEPTION THE	REAL	719.01	24.20	USU	177.54
	It's 20ther Engagement	198.87	177.74	124.12	262.81	20119
	Telal Espensies	4,258,16	4,391.53	2,128.61	8,317,69	1,010.40
T	Profit Loss) before exceptional from and for (5-2)	155.82	187.55	71134	176.15	204.84
r	Europhicoal Norte		-	7.7	-	-
t	Fruitt Setire Sax (S-4)	111.02	197.53	11136	274.83	19434
ĸ.	Too Expense	101		1.60	0.06	6.00
	Na Sanat	1.01		1.00	0.08	1.76
-	Toy Extential			0.00		6.00
Н	ta Will Codt	9.66		1.00	0.08	0.00
Ŧ	Profit Eps; for the period (5-4)	111.80	145.50	121,69	179.39	294.54
÷	Share of Profit (Loca) of associator and joint rentures					
÷	Other Comprehensive Income (Expense) (set of fact		-	-	-	
Ť	Bans dut will not be reclassified to Profit & Loss	_		_		
	these that self-turnetseather to Profit in Loca.		-		-	
10.	Total Comprehensive Income for the period (7 + 6) (Comprising Fruitt & Other Comprehensive Income for the period)	111.62	197.52	121.00	279.81	284.94
Ħ	Besic and Obsted Europay For Diate on Set Frutt utpe las jin Sagnesi	9.85	0.53	2.49	6.66	9.74
Œ	Find up Equity Share Capital (Fano value Ss. 16 - per share)	2,186.04	XHEN	URKH	1,000	LHAN

The Francisches Design von Sent proposed in acquainmental ball on Accounting Transaction Tell 47 (proceeding from the of Companies A.S. 2001 shall not not be proposed or part in comment of Regulation 2004 (2004) and the comment of Regulatio

The finitions hallown have parisonal a Limited Novieurot his above much Singrout Reporting as softiant in Accounting Number 17 is not again with

Takes during the current quartet have belorated than the process; poir quarter

Spran from Sharring student in virtual addresser considerations and law & ME reconstructioning of pressur St. Add St. due to to downward of fluid & Rustmany

PLACE : CHANDISARN

Extract of Electricism Unificated Property Results for the Granter and Half Year Stated SM: Segmentars ISSS

(1/6/20 (1/6/20 (1/6/20 95.25.003 JOJE SHIP by non-her medica Teach THEFT 1969 15 90' 6 'auus Six First -) and for the served bullet für Sought and an Extraordinan Serval Net First - Lincol for the pointed better files of Sought of Artist States of the Serval 412 30.75 46.0 XAL Departments home to the partie (Linearing Polit Sole) to the pend other per-ent other Compression income other test. Political Guide, There Carried File Hope of File. 1011)t 24 118.07 8128 em 9.0 Che Tody
Ferny for Tree joins 101 and 11
to be the tree of the 102 and 11
to be the tree of the orthographics
from: 140120

- Time fraction made has been projected a profession of the Companies fielder Associating Standards Raises (2011, projected and design (2011) of the Companies As (2011) and off-interest continuously from color.

 As (2011) and off-interest continuously from color.

 The Review and flower recognition from Association and approved by the State of Designate of the Companies that requiring the date of the Companies and association and design from the State of Designate of the Companies and and of the Companies. (2011) The State of the Companies of the Companies and colors a
- Papare of presidence particle season in grouposition-dependent relations in manager in continuous the particle is connected within

-

Chandigarh @





FINANCIAL EXPRESS



ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

CIN: L85110DL2004PLC126414

Plot No.14, Sector 20, Dwarka, Delhi- 110075

Ph.: +91-124-4511111

Email: investor@artemishospitals.com; Website: www.artemishospitals.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED **SEPTEMBER 30, 2023**

						(\takii)
- 41		Quarter	Ended	Half Year	Ended	Year Ended
S. No.	Particulars	30-Sep-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23
NO.		3 508 Se	(Unaud	dited)		(Audited)
1	Total Income from Operations	22,500.57	18,745.87	43,454.97	35,469.19	73,742.52
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,879.56	1,267.48	3,190.63	2,328.71	5,060.60
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,879.56	1,267.48	3,190.63	2,328.71	5,060.60
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,353.71	877.01	2,328.84	1,703.61	3,801.11
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,297.09	912.32	2,298.90	1,730.55	3,893.21
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value Re.1/-each)	1,358.61	1,334.27	1,358.61	1,334.27	1,341.19
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	y				32232.94
8	Earning per Equity Share (Face value Re.1/-each)					
	(a) Basic	1.00*	0.68*	1.73*	1.32*	2.89
	(b) Diluted	0.98*	0.66*	1.68*	1.26*	2.79
	(*Not annualised)					

The	key standalone financial information of	the Company is as unde	r;	ep:		(₹ in Lakh)
		Quarter	Ended	Half Year	r Ended	Year Ended
S. No.	Particulars	30-Sep-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23
140.	7100001C311P-0.7ND-0-9		(Unau	dited)		(Audited)
1	Total Income from Operations	21,691.48	18,244.09	41,810.09	34,590.68	71,433.11

2	Exceptional Items	1,093.77	1,411.40	3,233.13	2,320.42	3,200.30
3	Net Profit for the period after Tax	1,376.68	979.97	2,370.92	1,849.78	3,968.50
1.	The above is an extract of the detailed format of unau					

Limited (www.bseindia.com) and on the company's website (www.artemishospitals.com). The above financial results for the quarter and half year ended September 30, 2023 were reviewed by the Audit Committee at its meeting held on November 8, 2023 and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on November 8,

2023. The Statutory Auditors have expressed an unmodified conclusion on the aforesaid results.

Standalone) are available on the Stock Exchange websites National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) & BSE

The above financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended (Ind AS), as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, and the other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

> For and on behalf of the Board of Directors of Artemis Medicare Services Limited

Place : Gurugram Dated: November 8, 2023 Onkar Kanwar Chairman DIN: 00058921

(Rs. In Lakhs)

(₹ in Lakh)



P. STATE SUGAR CORPORATION LTD. VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010 Ph. No. 0522-2307826/28 www.upsugcorp.in Email: upstatesugarcorporation@gmail.com

Not Deafit for the paried before Tay after

Ref. No.: PUR/SSC/Tender/WB-1/2023-24/1047 Dated: 08.11.2023 e-Tender Notice

Online e-tenders are invited from Original manufacturers/ Authorized dealer (as per details given in tender documents) for Supply of 50 & 20 Ton Capacity Electronic Pit-type, load cell type weighbridges to Mohiuddinpur unit (District-Meerut) of U.P. State Sugar Corporation Ltd., The e-tender documents with detailed specifications, terms and conditions etc., can be downloaded from etender portal http://etender.up.nic.in & Sugar Corporation's website www.upsugcorp.in from 09.11.2023.

The Sugar Corporation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding process without assigning any reason to and decision of Corporation will be final & binding. MANAGING DIRECTOR

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

New Era Leasing and Finance Limited

Registered office: 23, Motia Khan, Rani Jhansi Road, New Delhi- 110055 New Delhi North East DL 110055 IN Email: neweraleasingfinance@gmail.com; Website: www.neweraleasingfinance.com; Contact No:011-68888824; CIN:L67120DL1984PLC018800

Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2023

SI.	Particulars	700	Quarter Ende	ed	Six Months Er	nded	Year ended
No		30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
		(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Un-audited)	(Audited)
1	Total Income from operations	2,45	2.41	1.32	4.85	2.62	15.22
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.64	0.42	(0.55)	1.06	(0.90)	1.90
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.64	0.42	(0.55)	1.06	(0.90)	1.90
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.64	0.42	(0.55)	1.06	(0.90)	1.40
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	0.64	0.42	(0.55)	1.06	(0.90)	1.40
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-)	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
7	Other Equity		,				1,433.33
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):						
	Basic:	0.0016	0.001	-0.01	0.0026	(0.00)	0.0035
	Diluted:	0.0016	0.001	-0.01	0.0026	(0.00)	0.0035

Date: 08.11.2023

Place: New Delhi

- These financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued there under.
- The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 08th November, 2023. The Statutory Auditor of the Company have provided Limited Review Report for the same.

- Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to confirm to the periods of current periods.
- Indian Accounting Standards are applicable on the Company.
- The Company is having only one business activity so the segment reporting under Ind As-108 is not required.

On Behalf of the Board For New Era Leasing and Finance Limited **Rohtash Sharma**

(Managing Director) BIN: 06804507 INDIAN ACRYLICS LIMITED

CIN: L24301PB1986PLC006715 REGD. OFFICE: VILLAGE - HARKISHANPURA, SUB-TEHSIL BHAWANIGARH, DISTT. - SANGRUR (PB)-148026.

Website: www.indianacrylics.com; Email ID: shares@indianacrylics.com EXTRACT OF STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30/09/2023

		ST	ANDALO	VE.	CO	NSOLIDA'	TED	STAND	ALONE	CONSOL	IDATED	STANDALONE (CONSOLIDATED
Sr. No.	Particulars	Qu	uarter End	ed	Q	uarter End	ed	Half End	TOTAL COLUMN	Half \		Year Ended	Year Ended
		30/09/23	30/06/23	30/09/22	30/09/23	30/06/23	30/09/22	30/09/23	30/09/22	30/09/23	30/09/22	31/03/23	31/03/23
		(UN	AUDITED)		((JNAUDITE	D)	(UNAUD	(ITED)	(UNAU	DITED)	(AUDITED)	(AUDITED)
1	Total income from operations	17280.38	14190.48	24759.37	17280.38	14190.48	24759.37	31470.88	48663.61	31470.86	48663.61	90949.57	90976.52
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items)	(2473.50)	(932.77)	(161.00)	(2473.55)	(932.82)	(161.04)	(3406.27)	(61.66)	(3406.37)	(61.75)	1920.31	1947.06
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	(2473.50)	(932.77)	(161.00)	(2473.55)	(932.82)	(161.04)	(3406.27)	(61.66)	(3406.37)	(61.75)	1920.31	1947.06
4	Net Profit for the period After Tax (After Extraordinary and/ or exceptional Items)	(2473.50)	(932.77)		(2473.55)					(3406.37)	(61.75)	1920.31	1947.06
5	Total Comprehensive income for the period [comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(2455.19)	(906.43)	(175.83)	(2455.30)	(906.42)	(174.95)	(3361.62)	(82.64)	(3361.72)	(81.36	1936.81	1962.04
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Shares Rs. 10/- each) accounting year.	13532.00	13532.00		13532.00	13532.00				13532.00		S = 554.545 = 3000	13532.00
7	Earning per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)												
	Basic & Diluted	(1.83)	(0.69)	(0.12)	(1.83)	(0.69)	(0.12)	(2.52)	(0.05)	(2.52)	(0.05)	1.42	1.44

Regulations, 2015. The full format of Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on the Company's website: www.indianacrylics.com For and on behalf of Board of Directors Place: Chandigarh

Dated: 08/11/2023 MANAGING DIRECTOR

SYSCHEM (INDIA) LIMITED

Regd. Office: Village BARGODAM, Tehsil Kalka, Distt. Panchkula (Haryana) | website: www.syschem.in | CIN: L24219HR1993PLC032195

	Statement of Unaudited Financial Results for the (UARTER ENDE	-	HALF YEAR	ENDED
•		30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022
S. No	PARTICULARS	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited
1.	Income from Operations		3	8		•
1.	(a) Revenue from Operations - Gross	4,367.79	5,028.58	2,249.12	9,396.37	3,884.91
	(b) Other Income	0.19	0.49	13.45	0.68	18.49
- 88	Total Income from Operations	4,367.98	5,029.06	2,262.57	9,397.05	3,903.40
2.	Expenses					
	(a) Cost of materials consumed	3,199.88	3,726.63	1,583.09	6,926.51	2,800.11
- 1	(b) Purchase of Stock in Trade	-	-	- 1	- 1	-
	(c) Changes in inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock-in-trade	10.28	29.21	(4.56)	39.49	-47.86
- 10	(d) Employee benefits expense	146.54	130.94	105.66	277.48	203.45
- 69	(e) Finance Costs	3.08	10.44	2.05	13.52	2.71
	(f) Depreciation and amortisation expense	69.90	67.56	71.35	137.46	139.67
	(g) Excise Duty / GST	656.61	719.01	246.90	1,375.63	372.68
	(h) Other Expenses	169.87	177.74	124.12	347.61	227.70
	Total Expenses	4,256.16	4,861.53	2,128.61	9,117.69	3,698.46
3.	Profit/(Loss) before exceptional Items and Tax (1-2)	111.82	167.53	133.96	279.35	204.94
4.	Exceptional Items		- 3	-	-	-
5.	Profit before tax (3-4)	111.82	167.53	133.96	279.35	204.94
6.	Tax Expense	0.00	- 0	0.00	0.00	0.00
	for Current	0.00	- 1	0.00	0.00	0.00
	for Deferred	-	-	(0.00)	- 1	(0.00)
	for MAT Credit	0.00	- "	0.00	0.00	0.00
7.	Profit/(Loss) for the period (5-6)	111.82	167.53	133.96	279.35	204.94
8.	Share of Profit/(Loss) of associates and joint ventures	-	- 3	-	-	-
9.	Other Comprehensive Income/(Expense) (net of tax)		7		İ	
	Items that will not be reclassified to Profit & Loss	-	-	- 1	-	-
	Items that will be reclassified to Profit & Loss	-	- 1	- 1	-	-
10.	Total Comprehensive Income for the period (7+9) (Comprising Profit & Other Comprehensive Income for the period)	111.82	167.53	133.96	279.35	204.94
11.	Basic and Diluted Earning Per Share on Net Profit after Tax (in Rupees)	0.35	0.53	0.48	0.88	0.74
12.	Paid up Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per share)	3,189.04	3,189.04	3,054.04	3,189.04	3,054.04

- 1. The Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with relevant Rules thereunder and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- 2. The above unaudited results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on 8th November 2023.
- The Statutory Auditors have carried out a Limited Review of the above results. 3. Segment Reporting as defined in Accounting Standard 17 is not applicable.
- 4. Sales during the current quarter have Improved than the previous year quarter. 5. Figures have been re-grouped / re-arranged wherever considered necessary.
- 6. Sales & PAT declined in compare of previous Otr June 23 due to re-structuring of Plant & Machinery

PLACE: CHANDIGARH DATED: 08.11.2023

(RANJAN JAIN) **MANAGING DIRECTOR** DIN: 00635274

Kalyani Commercials Limited

Registered office: BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GT Karnal Road, New Delhi-110042 Email: kalyanicommercialslimited@gmail.com; Website: www.kalyani.gvpltrucks.com; Contact No: 011-43063223, 011-47060223; CIN:L65923DL1985PLC021453

Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2023

(Rs. In Lakhs) SI. Six Months Ended **Particulars** Quarter Ended Year ended No 30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022 31.03.2023 (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) (Un-audited) (Audited) Total Income from operations 7,638.91 13831.92 12,972.10 6,193.01 7,844.85 33223.8 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, 159.93 70.72 135.09 97.20 205.81 441.22 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after 135.09 97.20 159.93 70.72 205.81 441.22 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after 48.61 99.13 71.24 147.74 118.07 315.28 Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period 48.61 147.74 118.07 99.13 71.24 315.28 [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Other Equity 1,433.33 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations): 4.86 9.91 14.77 31.53 Basic: 7.12 11.81 Diluted: 4.86 9.91 7.12 14.77 11.81 31.53

NOTES:

- Other-

Date: 08.11.2023

Place: New Delhi

- These financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued there under.
- The Above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 08th November, 2023. The Statutory Auditor of the Company have provided Limited Review Report for the same.
- Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary to confirm to the periods of current periods.
- Indian Accounting Standards are applicable on the Company.
- The Company has reported Segment wise reporting as per Accounting Standard (AS-17). The Company has reported the following business segments: Limited Automobile

On Behalf of the Board For Kalyani Commercials Limited Sourabh Agarwal

New Delhi

(Whole time director and CFO) DIN: 02168346

financialexp.epap.in





091123_JS_CHANDIGARH.pdf





जनसता १९ नवंबर, २०२३



ON: L21012HP1980PLC004398

Ξ	See		me but		-		700
	7001100	***	60 (B. 2014)	48.50	N 8-MI	4.M. (00)	S-MLP
		retries	ARTIN	untile.	of Street	ritte	mile
Ξ	mark it an on that	74048	99617	250	1907.00	1741174	per I
Ξ	pet a te ja pe pe per per de de de la visit.	2008(0)	(Fig. 8)	- 000140	400 H	mente	- Mile b
a	AND A REPORT OF A PERSON AND ADDRESS.	200 to	- (mara)-	9000	400,00	- monore	General
-	sold in the sir on the bride has been do in the	2000	11940	-0000	103.45	313.46	- 000
	ands in the year name are	, etc.	date	196,4	2014	bising.	10'000
1	year shall the 16	(New III)	(Marrie)	07/5/46	(1001.10)	Street	Mary 6
7	or chief of hi is side, po is 2			111111			300-1
ä	6.9	-16		-19	2.8	100	- 64

CHICA DOWN THEN THEN THEN

NORTH THE	Subset P Subset SE	T Spice	
	35626	Treated	2000
Institute -			-
Section in contrasts	27	140	- 100
2000	1.5	100	-
Name and Post Office of			
DESE:	1100		
Mares.		12	.12
Marie To			

कुल्लू के मानतलाई मार्ग पर नोएडा के पर्वतारोही की मौत

टुंडा भीज के समीप नदी में से शब बरामद हुआ

THE MEN WAS NOT USED THE THAT THAT MAN MEN HELD STATE 266 USS 878 878

जनसवा |

1 1001 3133 5









